

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2024—फाल्गुन 30, शक 1945

### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

फा.क्र.14—चार—2024—वि.निर्वा.—56.—विधि मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं एवं उनका हिन्दी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक H-11024-4-2023-Leg-II, दिनांक 20 मार्च 2024.
2. भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 464—EPS-2024(1), दिनांक 20 मार्च 2024.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

**भारत सरकार**  
**विधि और न्याय मंत्रालय**  
**(विधायी विभाग)**

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2024—फाल्गुन 30, 1945 (शक)

अधिसूचना

का0आ0 ..... (अ)—सत्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर, नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है :

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी, यथास्थिति, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल और अंदमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट की गई उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार, सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करती हैं :

राज्य (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)
अरुणाचल प्रदेश	1- अरुणाचल पश्चिम 2- अरुणाचल पूर्व
असम	10-काजीरंगा 11-सोनितपुर

	12-लखीमपुर
	13-डिब्रूगढ़
	14-जोरहाट
बिहार	37-औरंगाबाद
	38-गया (अ.जा.)
	39-नवादा
	40-जमुई (अ.जा.)
छत्तीसगढ़	10-बस्तर (अ.ज.जा.)
मध्य प्रदेश	11-सीधी
	12-शहडोल (अ.ज.जा.)
	13-जबलपुर
	14-मण्डला (अ.ज.जा.)
	15-बालाघाट
	16-छिन्दवाड़ा
महाराष्ट्र	9-रामटेक (अ.जा.)
	10-नागपुर
	11-भन्डारा-गोंदिया
	12-गड़चिरोली-चिमुर् (अ.ज.जा.)
	13-चन्द्रपुर
मणिपुर	1-आंतरिक मणिपुर
	2-बाह्य मणिपुर (अ.ज.जा.)
मेघालय	1-शिलांग (अ.ज.जा.)
	2-तुरा (अ.ज.जा.)
मिजोरम	1-मिजोरम (अ.ज.जा.)
नागालैंड	1-नागालैंड
राजस्थान	1-गंगानगर (अ.जा.)
	2-बीकानेर (अ.जा.)
	3-चूरु
	4-झुन्झुनू
	5-सीकर
	6-जयपुर ग्रामीण
	7-जयपुर

	8-अलवर
	9-भरतपुर (अ.जा.)
	10-करौली-धौलपुर (अ.जा.)
	11-दौसा (अ.ज.जा.)
	14-नागौर
सिक्किम	1-सिक्किम
तमिलनाडु	1-तिरुवल्लुर (अ.जा.)
	2-चेन्नई उत्तर
	3-चेन्नई दक्षिण
	4-चेन्नई केन्द्रीय
	5-श्रीपेरुम्बुदुर
	6-कांचीपुरम (अ.जा.)
	7-अराकोन्नम
	8-वेल्लोर
	9-कृष्णागिरी
	10-धर्मापुरी
	11-तिरुवन्नामलाई
	12-अरानी
	13-विलुपुरम (अ.जा.)
	14-कल्लाकुरिची
	15-सलेम
	16-नामाक्कल
	17-इरोड
	18-तिरुप्पुर
	19-नीलगिरि (अ.जा.)
	20-कोयम्बटूर
	21-पोल्लाची
	22-डिण्डीगुल
	23-करूर
	24-तिरुचिरापल्ली
	25-पेरम्बलुर
	26-कुड्डालोर

	27-चिदम्बरम (अ.जा.)
	28-मइलादुपुरई
	29-नागापट्टिनम (अ.जा.)
	30-थन्जातुर
	31-शिवगंगा
	32-मदुरई
	33-थेनी
	34-विरूधुनगर
	35-रामानाथपुरम
	36-थूथुकुडी
	37-टेनकासी (अ.जा.)
	38-तिरूनेलवेली
	39-कन्याकुमारी
त्रिपुरा	1-त्रिपुरा पश्चिम
उत्तर प्रदेश	1-सहारनपुर
	2-कैराना
	3-मुजफ्फरनगर
	4-बिजनौर
	5-नगीना (अ.जा.)
	6-मुरादाबाद
	7-रामपुर
	26-पीलीभीत
उत्तराखंड	01-टिहरी गढ़वाल
	02-गढ़वाल
	03-अल्मोड़ा (अ.जा.)
	04-नैनीताल-ऊधमसिंह नगर
	05-हरिद्वार
पश्चिमी बंगाल	1-कूच बिहार (अ.जा.)
	2-अलीपुर द्वारस (अ.ज.जा.)
	3-जलपाईगुड़ी (अ.जा.)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
जम्मू-कश्मीर	4-ऊधमपुर
लक्षद्वीप	1- लक्षद्वीप (अ.ज.जा.)
पुडुचेरी	1-पुडुचेरी

[फा.सं. एच-11024(4)/2023-वि.।।]

हस्ता./-  
(दिवाकर सिंह)  
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी.

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
LEGISLATIVE DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20<sup>th</sup> March, 2024  
Phalguna 30, 1945 (SAKA).

S.O. .... (E).— Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Seventeenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary Constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union territories, as the case may be, of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and Andaman & Nicobar Islands, Jammu & Kashmir, Lakshadweep and Puducherry, as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

STATE (1)	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (2)
ARUNACHAL PRADESH	1-Arunachal West
	2-Arunachal East
ASSAM	10-Kaziranga
	11-Sonitpur
	12-Lakhimpur
	13-Dibrugarh
	14-Jorhat
BIHAR	37-Aurangabad
	38-Gaya (SC)
	39-Nawada
	40-Jamui (SC)
CHHATTISGARH	10-Bastar (ST)

MADHYA PRADESH	11-Sidhi	
	12-Shahdol (ST)	
	13-Jabalpur	
	14-Mandla (ST)	
	15-Balaghat	
	16-Chhindwara	
MAHARASHTRA	9-Ramtek (SC)	
	10-Nagpur	
	11-Bhandara-Gondiya	
	12-Gadchiroli-Chimur (ST)	
	13-Chandrapur	
MANIPUR	1-Inner Manipur	
	2-Outer Manipur (ST)	
MEGHALAYA	1-Shillong (ST)	
	2-Tura (ST)	
MIZORAM	1-Mizoram (ST)	
NAGALAND	1-Nagaland	
RAJASTHAN	1- Ganganagar (SC)	
	2- Bikaner (SC)	
	3- Churu	
	4- Jhunjhunu	
	5- Sikar	
	6- Jaipur Rural	
	7- Jaipur	
	8- Alwar	
	9- Bharatpur (SC)	
	10-Karauli-Dholpur (SC)	
	11- Dausa (ST)	
	14- Nagaur	
	SIKKIM	1-Sikkim
	TAMIL NADU	1- Tiruvallur (SC)
2- Chennai North		
3- Chennai South		

	4-Chennai Central
	5-Sriperumbudur
	6-Kancheepuram (SC)
	7- Arakkonam
	8-Vellore
	9-Krishnagiri
	10-Dharmapuri
	11-Tiruvannamalai
	12-Arani
	13-Viluppuram (SC)
	14- Kallakurichi
	15- Salem
	16- Namakkal
	17- Erode
	18-Tiruppur
	19-Nilgiris (SC)
	20-Coimbatore
	21-Pollachi
	22- Dindigul
	23-Karur
	24- Tiruchirappalli
	25- Perambalur
	26-Cuddalore
	27- Chidambaram (SC)
	28- Mayiladuthurai
	29- Nagapattinam (SC)
	30-Thanjavur
	31-Sivaganga
	32-Madurai
	33-Theni
	34-Virudhunagar
	35-Ramanathapuram
	36-Thoothukkudi



	37-Tenkasi (SC)
	38-Tirunelveli
	39-Kanniyakumari
TRIPURA	1-Tripura West
UTTAR PRADESH	1- Saharanpur
	2-Kairana
	3-Muzaffarnagar
	4-Bijnor
	5-Nagina (SC)
	6-Moradabad
	7-Rampur
	26-Pilibhit
UTTARAKHAND	01-Tehri-Garhwal
	02-Garhwal
	03-Almora (SC)
	04-Nanital-Udhamsingh Nagar
	05-Hardwar
WEST BENGAL	1-Coochbehar (SC)
	2-Alipurduars (ST)
	3-Jalpaiguri (SC)
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	1-Andaman and Nicobar Islands
JAMMU & KASHMIR	4-Udhampur
LAKSHADWEEP	1-Lakshadweep (ST)
PUDUCHERRY	1-Puducherry

[F. No. H-11024(4)/2023-Leg. II]

Sd./-  
(DIWAKAR SINGH)  
Joint Secretary and Legislative Counsel.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 2024-30 फाल्गुन, 1945 (शक)

### अधिसूचना

**यतः**, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्गत और भारत के राजपत्र में 20 मार्च, 2024 (बुधवार) को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य-क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा की है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

2. **अतः, अब**, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के संबंध में

- (क) बिहार के लिए नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के रूप में **28 मार्च, 2024 (गुरुवार)** को और अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी के लिए नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के रूप में **27 मार्च, 2024 (बुधवार)** को;
- (ख) बिहार के लिए नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में **30 मार्च, 2024 (शनिवार)** को और अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी के लिए नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में **28 मार्च, 2024 (गुरुवार)** को;
- (ग) बिहार के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख के रूप में **02 अप्रैल, 2024 (मंगलवार)** को और अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख के रूप में **30 मार्च, 2024 (शनिवार)** को;
- (घ) नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और
- (ङ) **6 जून, 2024 (गुरुवार)** को उस तारीख के रूप में, जिससे पहले ऊपर उल्लिखित सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा;

नियत करता है; और

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में इसके स्तंभ (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

<b>अनुसूची</b>			
<b>संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तिथि और मतदान का समय</b>			
<b>चरण-1</b>			
राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड	मतदान की तिथि	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
अरुणाचल प्रदेश	1-अरुणाचल पश्चिम	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	2-अरुणाचल पूर्व	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
असम	10-काजीरंगा	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	11-सोनितपुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	12-लखीमपुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	13-डिब्रूगढ़	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	14-जोरहाट	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
बिहार	37-औरंगाबाद		
	222-कुटुम्बा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	224-रफीगंज वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	225-गुरूआ वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	227-इमामगंज (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	231-टिकारी वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	223-औरंगाबाद वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	38-गया (अ.जा.)		
	226-शेरघाटी वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	228-बाराचट्टी (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	229-बोधगया (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	230-गया टाउन वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	232-बेलागंज वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	234-वजीरगंज वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	39-नवादा		

	235-रजौली (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	238-गोविन्दपुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	170-बरबीघा वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	236-हिसुआ वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	237-नवादा वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	239-वारिसलीगंज वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>40-जमुई (अ.जा.)</b>		
	240-सिकन्दरा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	241-जमुई वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	242-झाझा वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	243-चकाई वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	164-तारापुर वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	169-शेखपुरा वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
<b>छत्तीसगढ़</b>	<b>10-बस्तर (अ.ज.जा.)</b>		
	83-कोन्डागांव (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे
	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे
	85- बस्तर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	86-जगदलपुर वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	72 मतदान केन्द्रों के लिए 57-माचकोट, 85-दोगम, 86-जाटम, 87-नियानार 1, 88-नियानार 2, 180- सदगुड़ 1, 181-सदगुड़ 2, 182- उलनार, 183-धनियालूर 1, 184- धनियालूर 2, 186-कुलगांव, 187- पुसपाल 1, 188- पुसपाल 2, 189- कैकागढ़, 190-कवापाल, 191-तिरिया, 192-नेतनार 1, 193-नेतनार 2, 194- चीतलगुर, 195-गुमालवाड़ा, 196- कवालीकला, 197-चाचलगुर, 198- नागलसर, 199-कोलावाड़ा, 202- नानगुर, 203-छोटेकावाली, 204- काकरवाड़ा, 205-बीरनपाल, 206- तोंदपाल, 207-बड़ेमुरमा, 208- बड़ेबोदल, 209-चिलकुटी, 210- मांझीगुड़ा, 211-सिडमुड, 212-अलनार, 213-हाटपदमुर, 214-कैकाचेरबहार, 215-जामावाड़ा 1, 216-जामावाड़ा 2, 217-जामावाड़ा 3, 200-कोटमसर, 201-टोपर, 218-छिंदाबहार 1, 219- छिंदाबहार 2, 220-चिंगपाल 1, 221- चिंगपाल 2, 222-केशपुर, 223- ककनार, 224-महाकापाल, 225- कोयनार, 226-सेड़वा,

			227-गदामगुड़ा, 228-लेण्डा 1, 229-लेण्डा 2, 230-नेगानार, 231-कामानार, 232-मंगनार, 233-मावलीपदर 1, 234-मावलीपदर 2, 235-तीरथगढ़, 236-दरभा, 237-काकलगुर, 243-कोलंग, 244-कांदानार, 245-छिंदगुर, 246-चांदामेठा, 247-मुंडागढ़, 238-जूनापानी, 239-टाहकवाड़ा, 240-अलंगनार, 241-कनकापाल, 242-झीरम पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 03:00 बजे शेष 175 मतदान केन्द्रों के लिए पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 05:00 बजे	
	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
	88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
	89-बीजापुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
	90-कोन्टा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
मध्य प्रदेश	11-सीधी	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
	12-शहडोल (अ.ज.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
	13-जबलपुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
	14-मण्डला (अ.ज.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
	15-बालाघाट			
	108-बैहर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे	
	109-लांजी वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे	
	110-परसवाड़ा वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे	
	111-बालाघाट वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
	112-वारासिवनी वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
	113-कटंगी वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
	114-बरघाट (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
	115-सिवनी वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
		16-छिन्दवाड़ा	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	महाराष्ट्र	9-रामटेक (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
10-नागपुर		19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
11-भंडारा-गोंदिया				
63-अर्जुनी-मोरगांव (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.		19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
60-तुमसर वि.स.नि.क्षे.		19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
61-भंडारा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.		19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	
62-साकोली वि.स.नि.क्षे.		19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे	

	64-तिरोरा वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	65-गोंदिया वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>12-गडचिरोली-चिमुर (अ.ज.जा.)</b>		
	66-आमगांव (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे
	67-आरमोरी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे
	68-गडचिरोली (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे
	69-अहेरी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे
	73-ब्रम्हपुरी वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	74-चिमुर वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>13-चन्द्रपुर</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
<b>मणिपुर</b>	<b>1-आंतरिक मणिपुर</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	<b>2-बाह्य मणिपुर (अ.ज.जा.)</b>		
	33 - हीरोक वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	34 - वॉन्जिंग टेन्हा वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	35- खंगाबोक वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	36 - बाबाई वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	37 - काक्चिंग वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	38 - हियाँगलम वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	39 - सुयु वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	41 - चंडेल (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	46 - सैकुल (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	50 - कनापोकपी वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	51 - सैतू (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	57 - हन्गलेप (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	58 - चुराचन्दपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	59 - सैकोट (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	60 - सिंघाट (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	40 - जिरिबाम वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	42 - टैग्नोउमाल (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	43 - फुनायार (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे

	44 - उखरूल (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	45 - चिंगाड (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	47 - कारोंग (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	48 - माओ (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	49 - ताडुबी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	52 - तामेई (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	53 - तामेलोंग (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	54 - नुगाबा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	55 - तिपाईमुख (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	56 - थानलोन (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
<b>मेघालय</b>	<b>1-शिलांग (अ.ज.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	<b>2-तुरा (अ.ज.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
<b>मिजोरम</b>	<b>1-मिजोरम (अ.ज.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
<b>नागालैंड</b>	<b>1-नागालैंड</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
<b>राजस्थान</b>	<b>1-गंगानगर (अ.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>2-बीकानेर (अ.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>3-चूरू</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>4-झुझनू</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>5-सीकर</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>6-जयपुर ग्रामीण</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>7-जयपुर</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>8-अलवर</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>9-भरतपुर (अ.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>10-करोली-धौलपुर (अ.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>11-दौसा (अ.ज.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>14-नागौर</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
<b>सिक्किम</b>	<b>1-सिक्किम</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
<b>तमिलनाडु</b>	<b>1-तिरुवल्लुर (अ.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>2-चेन्नई उत्तर</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>3-चेन्नई दक्षिण</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>4-चेन्नई केन्द्रीय</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>5-श्रीपेरूमबुडुर</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>6-कांचीपुरम (अ.जा.)</b>	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

	7-अराकोन्नम	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-वेल्लोर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-कृष्णागिरी	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	10-धर्मापुरी	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	11-तिरूवन्नामलाई	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	12-अरानी	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	13-विलुपुरम् (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	14-कल्लाकुरिची	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	15-सलेम	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	16-नामाक्कल	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17-इरोड	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	18-तिरूपुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	19-नीलगिरि (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	20-कोयम्बटूर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	21-पोल्लाची	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	22-डिण्डीगुल	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	23-करूर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	24-तिरूचिरापल्ली	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	25-पेरम्बलुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	26-कुड्डालोर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	27-चिदम्बरम (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	28-मइलादुथुरई	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	29-नागापट्टिनम (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	30-थन्जावुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	31-शिवगंगा	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	32-मदुरई	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	33-थेनी	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	34-विरूधुनगर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	35-रामानाथपुरम	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	36-थूथुकुडी	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	37-टैनकासी (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	38-तिरूनेलवेली	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	39-कन्याकुमारी	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
त्रिपुरा	1-त्रिपुरा पश्चिम	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
उत्तर प्रदेश	1-सहारनपुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-कैराना	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-मुजफ्फरनगर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे



	4-बिजनौर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-नगीना (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-मुरादाबाद	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-रामपुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	26-पीलीभीत	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
<b>उत्तराखण्ड</b>	01-टिहरी गढ़वाल	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	02-गढ़वाल	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	03-अल्मोड़ा (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	04-नैनीताल-ऊधमसिंह नगर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	05-हरिद्वार	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
<b>पश्चिम बंगाल</b>	1-कूच बिहार (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-अलीपुर द्वारस (अ.ज.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-जलपाईगुड़ी (अ.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
<b>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>	1-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>	4-ऊधमपुर	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
<b>लक्षद्वीप</b>	1-लक्षद्वीप (अ.ज.जा.)	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.30 बजे से अप. 6.30 बजे
<b>पुडुचेरी</b>	1-पुडुचेरी	19.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

हस्ता./-  
 (संजीव कुमार प्रसाद)  
 सचिव,  
 भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated the 20<sup>th</sup> March 2024- 30 Phalgun, 1945 (Saka)**NOTIFICATION**

**WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 20<sup>th</sup> March, 2024 (Wednesday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule, (a) **the 28<sup>th</sup> March, 2024 (Thursday)**, as the last date for making nominations for Bihar and the **27<sup>th</sup> March, 2024 (Wednesday)**, as the last date for making nomination for Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir, Lakshadweep and Puducherry;

(b) **the 30<sup>th</sup> March, 2024 (Saturday)**, as the date for scrutiny of nominations for Bihar and the **28<sup>th</sup> March, 2024 (Thursday)**, for scrutiny of nominations for Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir, Lakshadweep and Puducherry;

(c) **the 02<sup>nd</sup> April, 2024 (Tuesday)**, as the last date for withdrawal of candidatures for Bihar and the **30<sup>th</sup> March, 2024 (Saturday)**, as the last date for withdrawal of candidatures for Arunachal Pradesh,

**Assam, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir, Lakshadweep and Puducherry;**

(d) the date specified in column (3) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and

(e) the **06<sup>th</sup> June, 2024 (Thursday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and

**(B) Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

**SCHEDULE**

**Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll**

**PHASE-I**

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency Segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>ARUNACHAL PRADESH</b>	<b>1-Arunachal West</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>2-Arunachal East</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
<b>ASSAM</b>	<b>10-Kaziranga</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>11-Sonitpur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>12-Lakhimpur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>13-Dibrugarh</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>14-Jorhat</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM

<b>BIHAR</b>	<b>37-Aurangabad</b>		
	222-Kutumba (SC) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	224-Rafiganj AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	225-Gurua AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	227-Imamganj (SC) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	231-Tikari AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	223-Aurangabad AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>38-Gaya (SC)</b>			
226-Sherghati AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM	
228-Barachatti (SC) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM	
229-Bodh Gaya (SC) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM	
230-Gaya Town AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM	
232-Belaganj AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM	
234-Wazirganj AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM	
<b>39-Nawada</b>			
235-Rajauli (SC)	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM	
238-Gobindpur	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM	
170- Barbigha AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM	
236-Hisua AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM	
237-Nawada AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM	
239-Warsaliganj AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM	
<b>40-Jamui (SC)</b>			
240-Sikandra (SC) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM	
241-Jamui AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM	



			213-Hatpadmur, 214- Kaikacherbahar, 215- Jamawada 1, 216- Jamawada 2, 217- Jamawada 3, 200- Kotamsar, 201-Topar, 218-Chhindabahar 1, 219- Chhindabahar 2, 220-Chingpal 1, 221- Chingpal 2, 222- Keshapur, 223- Kaknar, 224- Mahakapal, 225- Koynar, 226-Sedwa, 227-Gadamguda, 228- Lendra 1, 229-Lendra 2, 230-Neganar, 231- Kamanar, 232- Mangnar, 233- Mavlipadar 1, 234- Mavlipadar 2, 235- Tirathgarh, 236- Darbha, 237- Kakalgur, 243-Koleng, 244-Kandanar, 245- Chhindgur, 246- Chandameta, 247- Mundagarh, 238- Junapani, 239- Tahakwada, 240- Alangnar, 241- Kanakapal, 242- Jhiram <b>07:00 AM to 03:00          PM</b> <u>For Remaining 175</u> <u>Polling Stations</u> <b>07:00 AM to 05:00          PM</b>
	87-Chitrakot (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	88-Dantewada (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM

	89-Bijapur (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	90- Konta (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
<b>MADHYA PRADESH</b>			
	11-Sidhi	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	12-Shahdol (ST)	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13-Jabalpur	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	14-Mandla (ST)	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	15-Balaghat		
	108- Baihar (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	109- Lanji AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	110- Paraswada AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	111- Balaghat AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	112- Waraseoni AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	113- Katangi AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	114- Barghat (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	115- Seoni AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	16-Chhindwara	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>MAHARASHTRA</b>			
	9-Ramtek (SC)	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	10-Nagpur	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	11-Bhandara-Gondiya		
	63-Arjuni-Morgaon (SC) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	60- Tumsar AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	61-Bhandara (SC) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	62-Sakoli AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM

	64-Tirora AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	65-Gondiya AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>12-Gadchiroli-Chimur (ST)</b>		
	66-Amgaon (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	67-Armori (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	68-Gadchiroli (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	69-Aheri (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	73-Bharmapuri AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	74-Chimur AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>13-Chandrapur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>MANIPUR</b>	<b>1-Inner Manipur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	<b>2-Outer Manipur (ST)</b>		
	33 - Heirok AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	34 - Wangjing Tentha AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	35 - Khangabok AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	36 - Wabgai AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	37 - Kakching AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	38 - Hiyanglam AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	39 - Sugnoo AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	41 - Chandel (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	46 - Saikul (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	50 - Kangpokpi AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	51 - Saitu (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	57 - Henglep (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM



	58 - Churachandpur (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	59 - Saikot (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	60 - Singhat (ST) AC	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	40 - Jiribam AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	42 - Tengnoupal (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	43 - Phungyar (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	44 - Ukhrul (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	45 - Chingai (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	47 - Karong (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	48 - Mao (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	49 - Tadubi (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	52 - Tamei (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	53 - Tamenglong (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	54 - Nungba (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	55 - Tipaimukh (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
	56 - Thanlon (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07.00 AM to 04.00 PM
<b>MEGHALAYA</b>	<b>1-Shillong (ST)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	<b>2-Tura (ST)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
<b>MIZORAM</b>	<b>1-Mizoram (ST)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
<b>NAGALAND</b>	<b>1-Nagaland</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
<b>RAJASTHAN</b>	<b>1- Ganganagar (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2- Bikaner (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM

	<b>3- Churu</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4- Jhunjhunu</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>5- Sikar</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6- Jaipur Rural</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7- Jaipur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>8- Alwar</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>9- Bharatpur (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>10-Karauli-Dholpur (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>11- Dausa (ST)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>14- Nagaur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>SIKKIM</b>	<b>1-Sikkim</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
<b>TAMIL NADU</b>	<b>1- Tiruvallur (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2- Chennai North</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>3- Chennai South</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4-Chennai Central</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>5-Sriperumbudur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6-Kancheepuram (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7- Arakkonam</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>8-Vellore</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>9-Krishnagiri</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>10-Dharmapuri</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM

<b>11-Tiruvannamalai</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>12-Arani</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>13-Viluppuram (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>14- Kallakurichi</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>15- Salem</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>16- Namakkal</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>17- Erode</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>18-Tiruppur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>19-Nilgiris (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>20-Coimbatore</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>21-Pollachi</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>22- Dindigul</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>23-Karur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>24- Tiruchirappalli</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>25- Perambalur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>26-Cuddalore</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>27- Chidambaram (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>28- Mayiladuthurai</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>29- Nagapattinam (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>30-Thanjavur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM

	<b>31-Sivaganga</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>32-Madurai</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>33-Theni</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>34-Virudhunagar</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>35-Ramanathapuram</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>36-Thoothukkudi</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>37-Tenkasi (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>38-Tirunelveli</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>39-Kanniyakumari</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>TRIPURA</b>			
	<b>1-Tripura West</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
<b>UTTAR PRADESH</b>			
	<b>1- Saharanpur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2-Kairana</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>3-Muzaffarnagar</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4-Bijnor</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>5-Nagina (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6-Moradabad</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7-Rampur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>26-Pilibhit</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>UTTARAKHAND</b>			
	<b>1- Tehri Garhwal</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>2- Garhwal</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM

	<b>3- Almora (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>4- Nainital- Udhamsingh Nagar</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>5- Hardwar</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
<b>WEST BENGAL</b>			
	<b>1-Coochbehar (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2-Alipurduars (ST)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>3-Jalpaiguri (SC)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>ANDAMAN &amp; NICOBAR ISLANDS</b>			
	<b>1-Andaman &amp; Nicobar Islands</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>JAMMU AND KASHMIR</b>			
	<b>4-Udhampur</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>LAKSHADWEEP</b>			
	<b>1-Lakshadweep (ST)</b>	19.04.2024 (Friday)	07:30 AM to 06:30 PM
<b>PUDUCHERRY</b>			
	<b>1-Puducherry</b>	19.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM

Sd./-  
(SANJEEV KUMAR PRASAD)  
Secretary to the  
Election Commission of India.